



रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय

संपदा कक्ष, चेन्नई - 600 018

एडमिन ब्लॉक, रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नई में पुरुष शौचालय का नवीनीकरण

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नई (इसके बाद "नियोक्ता" के रूप में संदर्भित किया गया है) कार्य की अनुसूची (एसओटी) के अनुसार "एडमिन ब्लॉक, रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नई में पुरुष शौचालय का नवीनीकरण" कार्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नई के पैनल में शामिल वेंडरों से ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। कार्य की अनुमानित लागत रु 8.10 लाख रुपये है और उक्त कार्य को प्रारंभ करने के लिए लिखित आदेश जारी होने के 10वें दिन से 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना अपेक्षित है।

निविदाकारों को ई-निविदा के अनुदेशों के अनुसार 29 फ़रवरी 2024 को या उससे पहले 02.00 बजे तक सभी प्रकार से पूर्ण सभी सहायक दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। निविदा की तकनीकी बोली (भाग I) और मूल्य बोली (भाग II) 29 फ़रवरी 2024 को अपराह्न 03.00 बजे इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। उपर्युक्त किसी भी तिथि को अवकाश होने पर, अगले कार्य दिवस में तत्संबंधी कार्य पूरा किया जाएगा। केवल उन निविदाकारों की वित्तीय बोली (भाग II) इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से खोली जाएगी जिनके भाग I दस्तावेज, मूल्यांकन के बाद पात्र पाए गए।

निविदा दस्तावेज को आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इस टेंडर के संबंध में कोई भी संशोधन / शुद्धीपत्र / स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट / ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे बोली प्रस्तुत करने से पहले किसी भी संशोधन / शुद्धीपत्र / स्पष्टीकरण के लिए उपर्युक्त वेबसाइट / ई-पोर्टल को देखें और सत्यापन करने के बाद प्रस्तुत करें। महाविद्यालय के पास बिना कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

मुख्य महाप्रबंधक / प्रधानाचार्य
रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय,
सं. 359, अण्णा सालै, तेनांपेट
चेन्नई - 600018

निविदा की अनुसूची

1. ई-निविदा सं.	आरबीआई/रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलेज/एस्टेट/10/23-24/ईटी/551
2. निविदा का नाम	एडमिन ब्लॉक, रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नई में पुरुष शौचालय का नवीनीकरण
3. निविदा का माध्यम	ई-खरीदारी प्रणाली ऑनलाइन ऑनलाइन भाग- I - पूर्व अहता मानदंड और तकनीकी वाणिज्यिक बोली और भाग- II - मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से ई-निविदा के लिए दिशानिर्देश अनुलग्नक - I के रूप में प्रदान किए गए हैं।
4. पार्टियों के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी), डाउनलोड हेतु उपलब्ध होने वाली तिथि	दोपहर 02:00 बजे 19 फ़रवरी 2024
5. बयाना जमा राशि	सफल बोलीदाता से कुल अनुबंध राशि का 2%
6. बयाना जमा राशि करने की अंतिम तिथि	सफल बोलीदाता को कार्य आदेश के अनुसार
7. बोली पूर्व बैठक	22 फरवरी 2024 को सुबह 11:30 बजे सम्मेलन कक्ष, रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, ग्राउंड फ्लोर, नंबर 359, अन्ना सलाई, तेनाम्पेट, चेन्नई - 600 018
8. ऑनलाइन माध्यम से तकनीकी वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली संबंधी ई-निविदा प्रस्तुत करने की शुरुआती तारीख	दोपहर 02:00 बजे 23 फरवरी 2024 www.mstcecommerce.com/eprocn
9. तकनीकी वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली संबंधी ऑनलाइन ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	दोपहर 02:00 बजे 29 फरवरी 2024
10. निविदा खोलने की तारीख व समय	अपराह्न 03:00 बजे 29 फरवरी 2024
11. लेन देन शुल्क	जैसा कि एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा प्रभारित